



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 106]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 26, 1981/चैत्र 5, 1903

No. 106]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 26, 1981/CHAITRA 5, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 26 मार्च, 1981

सीमा-शुल्क

सा.प्र.नि. 208(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधि-  
नियम 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त  
शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के राजस्व और  
वैकिंग विभाग की अधिसूचना सं. 211-सीमा-शुल्क, तारीख  
2 अगस्त, 1978 को अविक्रान्त करते हुए, अपना यह समाधान हो  
जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, किसी अन्-  
संधान संस्था द्वारा आयात किए गए सभी वैज्ञानिक और तक-  
नीकी उपकरणों, साधन और उपकरणों, जिनके अन्तर्गत  
उनके अतिरिक्त पर्जें, संघटक पर्जें और उपसाधन भी हैं,  
किन्तु, खपने वाली वस्तुओं को छोड़कर, सीमा-शुल्क टैरिफ  
अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के अधीन  
उन पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण सीमा-शुल्क से और उक्त सीमा-शुल्क  
टैरिफ अधिनियम की धारा 3 के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय

सम्पूर्ण अतिरिक्त शुल्क से, निम्नलिखित शर्तों के अधीन  
रहने हुए छूट देती है—

- (1) प्रत्येक मामले में, तकनीकी विकास महानिदेशालय का  
सम्यक् रूप से प्राधिकृत अधिकारी यह प्रमाणित करता  
है कि वह माल जिसकी बाबत छूट का दावा किया गया  
है, ऐसा है जो भारत में विनिर्मित नहीं है और ऐसा  
प्रमाणपत्र निकासी के समय या ऐसी अवधि के भीतर  
जो सहायक सीमा-शुल्क कलक्टर द्वारा पर्याप्त हेतुक  
दर्शित करने पर प्रत्येक मामले में अनुज्ञात की जाए,  
पेश किया जाता है; और
- (2) अनुसंधान संस्था सहायक सीमा-शुल्क कलक्टर को उक्त  
संस्था से प्रशासनिक रूप से संबंध मंत्रालय के अवर  
सचिव की पंक्ति से अन्यून अधिकारी से इस प्रभाव का  
एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगी कि ऐसे माल का आयात,  
जिसकी बाबत छूट का दावा किया गया है, अनुसंधान  
के लिए आवश्यक है और आयातित माल का उपयोग  
उक्त संस्था द्वारा केवल ऐसे प्रयोजनों के लिए किया  
जाएगा और उक्त संस्था किसी वाणिज्यिक क्रिया-  
कलाप में नहीं लगी हुई है।

2. यह अधिसूचना तत्काल प्रवृत्त होगी और 31 मार्च, 1983 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, प्रभावी रहेगी।

[सं 70-सीमा-शुल्क/फा. सं. 461/28/78-सीमा-शुल्क-5]

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

### NOTIFICATIONS

New Delhi, the 26th March, 1981

### CUSTOMS

**G.S.R. 208(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and in supersession of the notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking No. 211-Customs, dated the 2nd August, 1976, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts all scientific and technical instruments, apparatus and equipment; including spare parts, component parts, and accessories thereof, but excluding consumable items, imported by a research institution, from the whole of the duty of customs leviable thereon under the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) and the whole of the additional duty leviable thereon under section 3 of the said Customs Tariff Act, subject to the conditions that—

- (i) a duly authorised officer of the Directorate General of Technical Development certifies in each case that the goods in respect of which the exemption is claimed are such as are not manufactured in India and such certificate is produced at the time of clearance or within such period as the Assistant Collector of Customs, may, on sufficient cause being shown, allow in each case; and
- (ii) the research institution shall furnish a certificate to the Assistant Collector of Customs from an officer not below the rank of an Under Secretary in the Ministry administratively concerned with the said institution to the effect that the import of the goods in respect of which the exemption is claimed is essential for research and the imported goods shall be used only for such purposes by the said institutions and the said institution is not engaged in any commercial activity.

2. This notification shall come into force forthwith and shall remain in force upto and inclusive of the 31st day of March, 1983.

[Notification No. 70-Cus/F. No. 461/28/78-Cus.V]

**सा. क. नि. 209 (अ).**—केंद्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग की अधिसूचना सं. 135-सीमा-शुल्क, तारीख 1 जुलाई, 1977 को अधिक्रान्त करते हुए अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के शीर्षक सं. 84.51/55 के उप-शीर्षक सं. (2) के अन्तर्गत आने वाली अभिकलित्र परिधीय युक्तियों को, जब उनका किसी अनुसंधान संस्था को प्रदाय करने के लिए अभिकलित्र पद्धति के विनिर्माण के लिए, भारत में आयात किया जाए—

(क) उनपर उद्ग्रहणीय उस सम्पूर्ण सीमा-शुल्क से, जो उक्त पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, और

(ख) सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 के अधीन उनपर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण अतिरिक्त शुल्क से,

छूट देती है।

परन्तु अनुसंधान संस्था सहायक सीमा-शुल्क कलक्टर को इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के अवर सचिव की पंक्ति से अन्यून अधिकारी से इस प्रभाव का एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगी कि आयातित परिधीय युक्तियाँ, उक्त संस्था को प्रदाय करने के लिए अभिकलित्र पद्धति के विनिर्माण के लिए अर्पित हैं और यह अभिकलित्र का उपयोग अनन्यतः अनुसंधान प्रयोजनों के लिए करेगा और वह किसी वाणिज्यिक क्रियाकलाप में नहीं लगी हुई है।

2. यह अधिसूचना तत्काल प्रवृत्त होगी और 31 मार्च, 1981 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, प्रभावी रहेगी।

[सं 71-सीमा-शुल्क/फा. सं. 461/28/78-सीमा-शुल्क-5]

**G.S.R. 209(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and in supersession of the notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking No. 135-Customs, dated the 1st July, 1977, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts computer peripheral devices, falling under sub-heading No. (2) of Heading No. 84.51/55 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when imported into India for the manufacture of computer systems to be supplied to a research institution, from—

- (a) the whole of the duty of customs leviable thereon which is specified in the said First Schedule; and
- (b) the whole of the additional duty leviable thereon under section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975):

Provided that the research institution shall furnish a certificate to the Assistant Collector of Customs from an officer not below the rank of an Under Secretary in the Department of Electronics to the effect that the imported peripheral devices are required for the manufacture of computer system to be supplied to the said institution and that it shall use the computer exclusively for research purposes and that it is not engaged in any commercial activity.

2. This notification shall come into force forthwith, and shall remain in force upto and inclusive of the 31st day of March, 1983.

[Notification No. 72-Customs/F. No. 461/28/78-Cus.VI]

**सा. क. नि. 210 (अ).**—केंद्रीय सरकार, वित्त विधेयक, 1981 के खण्ड 47 के उपखण्ड (4) के साथ जिस को अनन्तिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त विधेयक में की गई घोषणा के फलस्वरूप विधि का बन प्राप्त है, पठित सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 46-सीमा-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1981 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में—

(क) क्रम सं. 72 और 106 का लोप किया जाएगा ;

(ख) क्रम सं. 101 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियाँ अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

“192 सं. 70-सीमा-शुल्क, तारीख 26 मार्च, 1981 ;  
193 सं. 71-सीमा-शुल्क, तारीख 26 मार्च, 1981 ।”

2. यह अधिसूचना तत्काल प्रदत्त होगी ।

[सं. 72-सीमा-शुल्क/फा. सं. 461/28/78-सीमा-शुल्क-5]

ए. कं. छाबड़ा, उप सचिव

**G.S.R. 210(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-clause 4 of clause 47 of the Finance Bill, 1981, which clause has, by virtue of the declaration made in the said Bill under the Provisional Collection of Taxes Act, 1951 (16 of 1951), the force of law, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public

interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 46-Customs, dated the 1st March, 1981, namely :—

In the Schedule to the said notification—

- (a) Serial Nos. 72 and 106 shall be omitted;
- (b) after Serial No. 191 and the entries relating thereto, the following Serial Nos. and entries shall be inserted, namely :—

“192 No. 70-Customs, dated 26th March, 1981.

193 No. 71-Customs, dated 26th March, 1981.”

2. This notification shall come into force forthwith.

[Notification No. 72-Customs/F. No. 461/28/76-Cus.V]

A. K. CHHABRA, Dy. Secy.

